

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 08.02.2021 जनपद देवरिया

दिनांक 07.02.2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरुद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में-

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गत:-

➔थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.ढाले उराव पुत्र दिवसा उराव सा0 मान्डर थाना मान्डर रांची झारखखण्ड गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया। इसके अतिरिक्त 01 अभियुक्त 01.मुनीब शर्मा पुत्र बाबूराम सा0 गोपालपुर थाना तरकुलवा,देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना बघौचघाट पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.योगेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 विश्वनाथ पाण्डेय सा0 पकड़ी मिश्रायिन थाना कटेया जिला गोपालगंज बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना कोतवाली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.कन्हैया वर्मा पुत्र दमड़ी वर्मा सा0 भीखमपुर रोड थाना कोतवाली देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना रुद्रपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.राजेश निषाद पुत्र रामाधार निषाद सा0 लक्ष्मीपुर थाना रुद्रपुर देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 20 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना सलेमपुर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.पिन्टू विश्वकर्मा पुत्र बृजेश विश्वकर्मा सा0 रामपुर बुजुर्ग थाना सलेमपुर देव गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 10 ली0 देशी अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

➔थाना भाटपार रानी पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.सूरज कुमार पुत्र सत्येन्द्र कुमार सा0 पंजावर जिला सिवान बिहार गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 26 ली0 देशी बण्टी बबली अवैध शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा एक अदद नाजायज चाकू के साथ 01अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 07.02.2021 को थानाध्यक्ष तरकुलवा मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर बेली पट्टी तिराहा के पास से एक व्यक्ति को एक अदद नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.बाबूलाल नोना पुत्र तुलसी नोना सा0 भेलीपट्टी थाना तरकुलवा, देवरिया बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद करते हुये तरकुलवा पुलिस द्वारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03.थाना गौरीबाजार पुलिस द्वारा 06 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया:-

दिनांक 07.02.2021 को थानाध्यक्ष गौरीबाजार मय हमराही क्षेत्र में भ्रमणशील थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि कुछ व्यक्ति रामपुर चौराहे के हुण्डा एजेंसी के पास जुआ खेल रहे है यदि जल्दी किया जाय तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर विश्वास कर पुलिस टीम द्वारा बताये गये पते पर दबिस दिया गया जहाँ 06 लोग पुलिस को देखकर भागने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा दौडाकर पकड लिया गया। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पूछने पर अपना नाम 01.विजय प्रताप सिंह पुत्र श्रवध कुमार सिंह सा0 देवगाव थाना गौरीबाजार देवरिया 02.प्रभात सिंह पुत्र दिनेश सिंह सा0 उसरी थाना गौरीबाजार देवरिया 03.भानू प्रताप सिंह पुत्र रामाशीष सिंह सा0

पथरहट थाना गौरीबाजार देवरिया 04.मुकेश कुमार पुत्र जयकिशुन सा0 गौरीबाजार वार्ड नं0 3 थाना गौरीबाजार देवरिया 05.समीम अहमद पुत्र इम्तियाज सा0 वार्ड नं0 3 थाना गौरीबाजार देवरिया 06.अखण्ड प्रातप सिंह पुत्र बालकन्द सिंह सा0 असनहर थाना गौरीबाजार देवरिया बताये व उनके कब्जे से तास के 52 पत्ते व माल फड-17750 रू0 व जामा तलाशी 7250 रू0 नगद बरामद किया गया। इस सम्बन्ध मे थाना गौरीबाजार पर अपराध धारा 13 जुआ अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की जा रही है।

04.वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी:-

दिनांक 07.02.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा 01 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनका विवरण निम्नवत है

➡ थाना-बनकटा मु0अ0सं0 24/2021 धारा-376 भादवि व 5/6 पाक्सो ऐक्ट 01.लालबाबू राजभर पुत्र स्व0 राज मंगल सा0 बंगरूआ थाना बनकटा, देवरिया

05.निरोधात्मक कार्यवाही-

दिनांक 07.02.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है-

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 37 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

06.जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही-

दिनांक 07.02.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है-

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 428 वाहनों से 434500 रूपये शमन शुल्क (ई-चालान) किया गया।